



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1762]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अक्टूबर 29, 2009/कार्तिक 7, 1931

No. 1762]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2009/KARTIKA 7, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2009

का.आ. 2724(अ).—यतः मै. मिकाडो रिअलटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने हरियाणा राज्य के गाँव बेहरामपुर और बलोला, गुडगाँव जिला में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित सेवाओं हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपरात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अन्तर्गत प्रस्ताव किया गया है;

और यतः केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने हरियाणा राज्य के गाँव बेहरामपुर और बलोला, जिला गुडगाँव में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित सेवाओं हेतु विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 30 अक्टूबर, 2008 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1), धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में :—

(i) केन्द्र सरकार, एतद्वारा गाँव बेहरामपुर और बलोला, गुडगाँव, जिला हरियाणा में निम्नलिखित क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक

जोन के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :—

तालिका

क्र. सं.	रिकार्ड नम्बर	किला नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4
1.	10	1/2	0.119
2.		10	0.405
3.		11/1	0.210
4.		11/2	0.195
5.		12	0.248
6.		13	0.250
7.		18	0.405
8.		19	0.405
9.		20	0.405
10.		21	0.405
11.		22	0.405
12.		23	0.405
13.	11	6	0.334
14.		15	0.405
15.		16/1	0.384
16.		25/2	0.309
17.	21	5/2	0.278
18.		6/1	0.263
19.		15/2	0.109
20.	22	1	0.405

1	2	3	4
21.		2	0.405
22.		3	0.405
23.		8	0.405
24.		9	0.405
25.		10	0.405
26.		11	0.177
27.		12/1	0.142
28.		12/2	0.129
29.		13/1	0.111
30.		13/2	0.185
31.		14/1	0.225
32.		17/2	0.013
33.		18/2	0.314
34.		19	0.405
35.		20	0.379
36.		151/2	0.584
कुल			11.033

(ii) केन्द्र सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति भी गठित करती है, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :—

- विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त — अध्यक्ष, पदेन
- निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा — सदस्य, पदेन
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकारी रखने वाला संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक — सदस्य, पदेन
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकारी रखने वाला सीमा-शुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा — सदस्य, पदेन
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकारी रखने वाला आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा — सदस्य, पदेन
- निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार — सदस्य, पदेन
- हरियाणा सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा — सदस्य, पदेन
- मै. मिकाडो रिअलटर्स प्राईवेट लिमिटेड (विकासकर्ता) का प्रतिनिधि — विशेष आमंत्रिती

(iii) केन्द्र सरकार, एतद्वारा दिनांक 29 अक्टूबर, 2009 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो/पत्तन माना जाएगा।

[फा. सं. एफ. 1/107/2008-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2009

S.O. 2724(E).—Whereas M/s. Mikado Realtors Private Limited, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for Electronic Hardware, Information Technology/Information Technology Enabled Services Sector at Village Behrampur and Balola, District Gurgaon in the State of Haryana;

And whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development operation and maintenance of the sector specific Special Economic Zone for Electronic Hardware, Information Technology/Information Technology Enabled Services Sector at Gurgaon, Haryana on 30th October, 2008;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4, sub-section (1) of Section 13, sub-section (2) of Section 53 and sub-section (1) of Section 11 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of Rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006 :—

(i) the Central Government hereby notifies the following area at Village Behrampur and Balola, District Gurgaon in the State of Haryana, comprising of the Survey numbers and the area given below in the table, as a Special Economic Zone, namely :—

TABLE

S. No.	Rect. No.	Killa No.	Area (in hectares)
1	2	3	4
1.	10	1/2	0.119
2.		10	0.405
3.		11/1	0.210
4.		11/2	0.195
5.		12	0.248

1	2	3	4	Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—
6.		13	0.250	1. Development Commissioner of the Special Economic Zone — Chairperson, ex-officio
7.		18	0.405	2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India — Member, ex-officio
8.		19	0.405	
9.		20	0.405	
10.		21	0.405	
11.		22	0.405	
12.		23	0.405	
13.	11	6	0.334	
14.		15	0.405	
15.		16/1	0.384	3. Joint Director General of Foreign Trade, having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone — Member, ex-officio
16.		25/2	0.309	
17.	21	5/2	0.278	
18.		6/1	0.263	4. Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner — Member, ex-officio
19.		15/2	0.109	
20.	22	1	0.405	
21.		2	0.405	
22.		3	0.405	
23.		8	0.405	5. Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner — Member, ex-officio
24.		9	0.405	
25.		10	0.405	
26.		11	0.177	
27.		12/1	0.142	6. Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India — Member, ex-officio
28.		12/2	0.129	
29.		13/1	0.111	7. Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the Government of Haryana — Members, ex-officio
30.		13/2	0.185	
31.		14/1	0.225	
32.		17/2	0.013	
33.		18/2	0.314	8. Representative of M/s. Mikado Realtors Private Limited (Developer) — Special Invitee
34.		19	0.405	
35.		20	0.379	
36.		151/2	0.584	
Total			11.033	

(ii) the Central Government hereby also constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of the said

(iii) the Central Government hereby also appoints the 29th day of October, 2009 as the date from which the above sector specific Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot/Port under Section 7 of the Customs Act, 1962.

[F.No.F.1/107/2008-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.